


dk; kly; I a Dr I pkyd ,oa v/kh{kd xkakh Lekjd
fpfdrI ky; jhok



' ; ke'kkg fpfdrI k egkfo | ky; jhok I s l a) xkakh Lekjd
fpfdRI ky; @ I at; xkakh Lefr fpfdRI ky; i fjl j es LFkkfir
bll hujyj I pkyu rFkk 'kMI zo vkvkDyo dh ink; xh o LFkki uk

r`rh; fufonk QkeZ ,oa 'krz
o"kl 2014&15

fufonk i i = d-----
5000@&
j l hn dekd-----
g tkj ek=½
fnukd-----

dher : -

½ i ; s i k

dk; kly; I a Dr I pkyd , oa
v/kh{kd xkakh Lekjd fpfdRI ky;
jhok e-i z
f}rh; fufonk i i =

2014&15

’; ke ’kkf g fpfdRI k egkfo / ky; jhok I s / x) xkakh Lekjd
fpfdRI ky; @ I at; xkakh Lefr fpfdRI ky; ifjIj esLFkdfir
bll hujVj I pkyu 0; oLFkk , oa ’kMj , oa vkhkDys dh ink; xh
o LFkki uka

fufonk i i = cpus dk vfire fnukd ,oa l e;
cts rd

01-9-2014 I k; a 3

Hkjh fufonk vkonu tek djus dk vfire fnukd ,oa l e;
cts rd

10-09-2014 I k; a 3

i klr fufonk; s [k]yus dk fnukd ,oa l e;
cts

11-09-2014 nkij gj 12%0

प्रति ,

दिनांक :—
e-i z

I a Dr I pkyd , oa v/kh{kd
xkakh Lekjd fpfdRI ky; jhok

dk; kly; I a Dr I pkyd ,oa v/kh/kd xk/kh Lekjd fpfdRI ky;

jhok

क्रमांक

/ क्रय / 2014

रीवा दिनांक

fufonk i i =

संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय परिसर रीवा मे स्थापित इंसीनरेटर Fluidtech Boilers, Ahmedabad द्वारा प्रदाय जिसकी क्षमता 100 किलोग्राम प्रति घन्टा है से संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय के जीव चिकित्सा अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) को भस्म करने एवं अन्य कचरे के उचित डिस्पोजल एवं आटोक्लेव ,शेडर की प्रदायगी व स्थापना हेतु अनुबंध होने के दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि का ठेका किये जाने हेतु सील बंद निविदायें निम्न शर्तों पर आमंत्रित की जाती है।

fufonk dh 'kr%&

1. प्रत्येक निविदाकार को अपनी सील बंद निविदा के साथ रूपये 3,00,000/- (रु. तीन लाख मात्र) की धरोहर राशि संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ.डी.आर. जो 1 वर्ष अथवा उससे अधिक के लिये जमा किया गया हो , लगाना अनिवार्य होगा । उक्त धरोहर राशि नगद या चेक द्वारा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदायें धरोहर राशि के सहित कार्यालय मे निर्धारित तिथि एवं समय तक रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जा सकेगी। निर्धारित तिथि एवं समयवाधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।
2. निविदाकार को चिकित्सालय परिसर में स्थित विभिन्न चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों /स्थानो से एकत्रित हुये जीव चिकित्सा अपशिष्ट एवं अन्य कचरे का उचित डिस्पोजल भी करना होगा। जीव चिकित्सा अपशिष्ट (Bio-MedicalWaste) एवं अन्य कचरा को इंसीनरेटर मे भस्म करना होगा। इंसीनरेटर मे उपयोग होने वाले ईधन (डीजल/ बिजली) इत्यादि पर होने वाला व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा ।
3. निविदा खुलने की निर्धारित तिथि एवं समय पर निर्धारित स्थान पर निविदाकार या उसके प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित रह सकते है जिसके लिये उसे अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।

4. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय समूह परिसर में स्थित विभिन्न चिकित्सालयों, भवनों, वार्ड्स, मेडिकल परिसर, बाह्य उपचार विभाग (ओ.पी.डी.) ,समस्त आपरेशन थियेटर , पैथालाजी एवं ब्लड बैंक से निकलने वाले समस्त प्रकार के ठोस, द्रव, जीव चिकित्सा अपशिष्ट तथा म्यूनिसपल वेस्ट को चिकित्सालय/वार्ड्स, भवनों एवं मेडिकल परिसर/बाह्य उपचार विभाग (ओ.पी.डी.) से इन्सीनरेटर अथवा चिन्हित स्थान तक ले जाने की सुरक्षित व्यवस्था स्वयं निविदाकार द्वारा की जावेगी तथा इसमें होने वाला व्यय भी निविदाकार द्वारा ही वहन किया जावेगा । बायोमेडिकल वेस्ट के अलावा चिकित्सालय परिसर में अन्य एकत्रित किया गया म्यूनिसपल कचरा भी उचित स्थान पर ले जाकर उसका भी उचित डिस्पोजल करना होगा, जिसकी व्यवस्था निविदाकार को रीवा शहर के नगर निगम के नियत कचरा स्थान तक पहुचा कर करना होगा अथवा इस कार्य को करने वाली संस्था से समन्वय कर भिजवाने की व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जावेगी । इसमें होने वाला व्यय भी निविदाकार को वहन करना होगा ।
5. निविदाकार को शासकीय चिकित्सालय में जीव चिकित्सा अपर्टमेंट भर्स्म करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
6. इन्सीनरेटर के पूरी तरह से रख—रखाव एवं संचालन के लिये निविदाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा । उसे समय—समय में उसकी जॉच, रख—रखाव एवं अन्य प्रकार के की व्यवस्था हेतु आवश्यक मैकेनिक, इन्जीनियर की व्यवस्था करनी होगी । इसके अतिरिक्त यदि उक्त इन्सीनरेटर के निर्माता — कम्पनी द्वारा उस संबंध में अलग से कोई निर्देश दिये जाते हैं तो उसके अनुसार समस्त कार्यवाही एवं व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी । यदि इन्सीनरेटर उपयोग करने के दौरान उसके किसी पार्ट्स् में कोई खराबी आती है या उसे बदलाना आवश्यक होता है तो निविदाकार उक्त पार्ट्स् को बदलायेगा । यदि किसी खराबी के कारण इन्सीनरेटर कुछ समय कार्य नहीं करता है तो ऐसे समय के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था में होने वाला व्यय निविदाकार द्वारा ही वहन करना होगा ।
7. प्रत्येक निविदाकार को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
8. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा से संबंधित संजय गांधी चिकित्सालय समूह के परिसर में इन्सीनरेटर द्वारा जीव अपशिष्ट भर्स्म किये जाने का भुगतान प्रतिमाह नियत दर के आधार पर किया जावेगा । संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा प्रतिमाह के कार्य की समीक्षा अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही ठेकेदार के बिल का भुगतान किया जावेगा । यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक को मासिक आधार पर आर्थिक दण्ड आरोपित करने का अधिकारी होगा । अर्थ दण्ड की राशि नियत मासिक दर की 50 प्रतिशत भी संभव हो सकेगी । किये गये कार्य की लागबुक संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से प्रतिदिन सत्यापित करानी होगी ।

9. इन्सीनरेटर मे कोई भी खराबी आने पर या उसके बंद होने पर निविदाकार को 24 घण्टे के अन्दर आवश्यक सुधार कार्य कराकर इन्सीनरेटर को चालू करना अनिवार्य होगा । इस अवधि मे जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण की वैकल्पिक व्यवस्था भी निविदाकार को करनी होगी, इसका पृथक से कोई भुगतान नहीं देय होगा ।
10. निविदाकार को म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जीव चिकित्सा अपि ाष्ट के केटेगिरी अनुसार कंटेनर्स/पाली बैग्स की स्वयं व्यवस्था करनी होगी ।
11. अधिष्ठाता, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति रीवा , संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक या उसके द्वारा नामांकित किसी भी व्यक्ति को इन्सीनरेटर यूनिट का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा, और यदि निरीक्षण के समय निविदाकार की कोई भी गलती या त्रुटि पाई जाती है तो निविदाकार पर उचित अर्थदण्ड अथवा ठेका निरस्त की कार्यवाही की जा सकेगी । ठेका निरस्ती पर दूसरे क्रम पर आने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृति की जायेगी । यदि द्वितीय निविदा स्वीकृति करने पर सोसायटी को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है तो वह धनराशि प्रथम ठेकेदार के अमानती राशि से वसूल की जावेगी ।
12. निविदाकार को इन्सीनरेटर पर कार्य प्रारम्भ करने के लिये इन्सीनरेटर के संचालन के संबंध में म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमति पत्र/प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
13. उपरोक्त निविदा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा मे अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा , संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक , सफल निविदाकार/ठेकेदार को 7 दिन का सूचना पत्र देकर निविदा समाप्त करने की कार्यवाही कर सकेंगे । निविदा समाप्त होने की दशा मे शेष बची अवधि के लिये अन्य व्यवस्था किये जाने मे संस्था को, यदि अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना पड़ता है तो वह अतिरिक्त धन राशि सफल निविदाकार/ठेकेदार से भू राजस्व की तरह वसूल की जावेगी । इसके अतिरिक्त उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि भी राजसात कर ली जावेगी ।
14. निविदा स्वीकृत होने की दशा मे सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत की दिनांक से 7 दिन के अन्दर उपरोक्त शर्तों के पालन हेतु अनुबंध पत्र निष्पादित करना अनिवार्य होगा ।
15. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा , संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा एवं क्य समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये संस्था के हित मे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेंगे । निविदाकार को श्रमिक विवेचना के राज्य एवं केन्द्र के अधिनियमों, श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा तथा श्रम कानून के अन्तर्गत ई.पी.एफ./ई.एस.आई. इत्यादि नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होगा । सफल निविदाकार को श्रम कानूनो के तहत श्रम विभाग से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा एवं की गई कार्यवाही की जानकारी अधोहस्ताक्षकर्ता को हर माह देना अनिवार्य होगा ।

16. निविदा अवधि के समाप्ति के पश्चात् इन्सीनरेटर को चालू हालत मे एवं इन्सीनरेटर की समस्त सामग्री संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय को सौपना होगा ।
17. यदि किसी कारणवश निविदा समाप्ति के समय जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक निविदाकार को पूर्ववत् नियम, शर्तों एवं उसी दर पर कार्य को संचालित करना अनिवार्य होगा ।
18. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं स्वशासी समिति द्वारा समय—समय पर लिये जाने वाले निर्णय उभय पक्ष को मान्य एवं बंधनकारी होंगे ।
19. निविदाकार द्वारा कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों की सूची एवं उनका चरित्र प्रमाण पत्र अधोहस्ताकर्ता के कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा । निविदाकार द्वारा कार्य मे लगाये गये समस्त कर्मचारियों की सुरक्षा एवं उनके समस्त स्वत्वों का भुगतान जिनमे आंशिक भविष्य निधि अनिवार्य रूप से सम्मिलित है का दायित्व निविदाकार का होगा । कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की जबाबदारी निविदाकार की होगी । किसी भी प्रकार की छतिपूर्ति इस संस्था द्वारा देय नहीं होगी ।
20. समस्त प्रकार के विवादों के निराकरण का क्षेत्राधिकार रीवा न्यायालय होगा ।
21. निविदाकार द्वारा दी गई कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी । सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
22. निविदाकार को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
23. शेडर व ऑटोकलेव निर्धारित स्पेसीफिकेसन के अनुसार ही होनें चाहिए । निविदाकार द्वारा इन उपकरणों का विस्तृत स्पेसीफिकेसन निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । प्रदाय किये गये उपकरणों पर स्थापना दिनांक से नियमानुसार 01 वर्ष की वारंटी/गारंटी निविदाकार की होगी इसका भी उल्लेख निविदा फार्म में करना अनिवार्य होगा । गारंटी/वारंटी समाप्त होनें पर ए.एम.सी./सी.एम.सी. भी निविदाकार के द्वारा की जावेगी इस हेतु ली जानें वाली राशि का भी उल्लेख पृथक से निविदाकार द्वारा किया जावे ।

uks/ %&

1. इस प्रपत्र के साथ अमानती राशि का एफ.डी.आर. व अन्य प्रमाण पत्र चेक लिस्ट के अनुसार लिफाफा ए (टेक्नीकल बिड) मे रख कर बंद करें ।
2. लिफाफा बी मे केवल प्राइज बिड ठेके की राशि प्रतिवर्ष का विवरण दें ।
3. लिफाफा ए एवं बी को एक अन्य बडे आउटर लिफाफे मे रखकर उस पर इन्सीनरेटर व्यवस्था हेतु निविदा वर्ष 2014–15 लिखें व सील कर के भेजें ।
4. टेक्नीकल बिड संतोषजनक पाये जाने पर ही प्राइज बिड खोली जावेगी ।

I a Dr I pkyd ,oa v/kh{kd
xk\kh Lekjd fpfdRI ky;]jhok

dk; kly; I a Dr I pkyd ,oa v/khkd xkikh Lekjd fpfdRI ky;
jhok

क्रमांक

/ क्रय / 2014

रीवा दिनांक

fufonk i i = dk i k: i bU hujVj 0; oLFkk gsrq

प्रमाणित
फोटोग्राफ

1. निविदा फर्म का नाम
2. निविदाकार पूरा नाम
3. उम्र/लिंग/पुरुष/स्त्रीवर्षपु0/म0
4. पिता का नाम
5. स्थानीय पता
6. स्थायी पता से संबंधित उचित दस्तावेज संलग्न करें
7. किसी राजपत्रित अधिकारी से
-
प्रमाणित दो पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करें
8. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियोग संलग्न करें
9. पेन न./ठेन न./आयकर क्लीरेन्स प्रमाण पत्र (विगत वर्ष)
10. म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र
11. श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण (यदि लागू हो तो)
12. इन्सीनरेटर ठेके की अमानती राशि
- रु. 3,00,000 (रु. तीन लाख मात्र) अंको एवं शब्दों में लिखें

13. बैंक एफडीआर डाफ्ट क्रमांक एवं दिनांक

14. अन्य जानकारी एवं संबंधित

....
दस्तावेज संलग्न करें

नोट:- मैंने आपके द्वारा प्रकाशित निविदा क्रमांक/दिनांक
..... को समाचार पत्र

.....
मे प्रकाशित हुई है, के अनुसार इन्सीनरेटर व्यवस्था के लिये निविदा की सभी
शर्तों को मै मान्य करता हूँ। मैंने अपनी तरफ से कोई शर्त निविदा आवेदन
में प्रस्तावित नहीं की है।

हस्ताक्षर
निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता

100 : 0 ¼ d | kS : - ½ ds uku t fMfI ; y LVkEi i s j

ea i Lrqr djia

?kkdkk. kk i = ¼ ki Fk i = ½

1. मै /हम भारत के नागरिक हूँ/ है।
2. मै /हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें चिकित्सालय मे तथा म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत नहीं किया गया है।
हमारी संस्था को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वशासी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।
4. मै /हम किसी ऐसे कान्ड्रेक्टर जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो न तों अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे /हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गयी है।यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की गई है तो उसे अमान्य किया जाये।
6. मेरे /हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा म.प्र. राज्य की किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं। मै वचनबद्ध होता हूँ कि यदि हमारी निविदा मान्य की गई तों मै निविदा नियमों एवं शर्तों का पालन करूगा।
7. मै/हम चिकित्सालय के किसी भी कर्मचारी से संबंधित नहीं है।
8. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई०/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाचं लबित नहीं है।
9. मेरे/हमारे/संस्था के उपर राज्य सरकार /केन्द्र सरकार का कोई कर बकाया नहीं है।

xokg ds gLrk{kj

gLrk{kj

1- xokg dk uke -----

uke-----

o i rk -----

2- xokg dk uke-----

---o i rk -----

fufonkdkj

I tFkk ds I {ke vf/kdkjh dk

i rk -----

I tFkk dk uke ,oa i rk -----

pd fyLV (fyQkQk , esj [kus gsrq ½

¼ ayXu nLrkost ½

dz	fufonk ds I kfk okfNr vko' ; d nLrkost	fufonkdkj }kj k fVd fd; k tkos	dz I fefr }kj k fVd fd; k tk; A
1.	मूल निविदा प्रपत्र मे प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व सीलयुक्त मूलतः	gk@ugh	gk@ugh
2.	जमानत राशि के रूप मे संयुक्त संचालक सह अधीक्षक जी.एम.एच. रीवा के नाम से रु. 300000.00 (तीन लाख) का एफ.डी.आर. क.दिनांकएक वर्ष अवधि क लिये जमा मूलतः।		
3.	फर्म/संस्था की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति । जिसमे निविदाकृत कार्य व्यवसाय प्रदर्शित हो।		
4.	आयकर रिटर्न एसेसमेंट पिछले 03 वर्षो का		
5.	सर्विस टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र		
6.	100.00 राशि के नान जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः		
7.	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नष्ट करने का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र 02 वर्षो का		
8	पैन कार्ड की छायाप्रति		
9	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पंजीयन प्रमाण पत्र		
10.	दर सूची (प्राइस बिड)		

fufonkdkj ds gLrk{kj , oa I hy

jV I ph KyQkQk ch es j [kus gsr]

Kufonkdkj vi ua yVj gM eajV I ph iLrr djA%

- मैं/हम निविदा में लिखी शर्तों एवं नियम को स्वीकार करते हुए श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय परिसर में स्थित विभिन्न चिकित्सालयों/वार्ड्स/परिसर/बाह्य उपचार विभाग के समस्त प्रकार के ठोस/द्रव जीव चिकित्सा अपशिष्टों को उचित रूप से इन्सीनरेटर द्वारा व शेष अन्य चिकित्सालय अपशिष्टों के उचित डिस्पोजल के लिये दरे निम्न प्रकार से प्रस्तावित करता हूँ।

सं.क्र	कार्य विवरण	राशि
1	चिकित्सालय परिसर में स्थित विभिन्न चिकित्सालयों/वार्ड्स/परिसर/बाह्य उपचार विभाग के समस्त प्रकार के ठोस/द्रव जीव चिकित्सा अपशिष्टों को उचित रूप से इन्सीनरेटर द्वारा व शेष अन्य चिकित्सालय अपशिष्टों के उचित डिस्पोजल के लिये दर	
2	AUTOCLAVE/Steam Sterilizer Horizontal High Pressure Clyndrical Steam Strelizer, Single Door, Standard, Model. 20" Dia X 48" Depth, Capacity 230 Litres, Power Load 9 K.W.,Pressure 1.1 to 2.2 Kg/Cm2 Temprature 121oC to 134oC, Vaccum 10" hg. With recording and printing device.	
3	SHREDDER Shredder Rotor Size 12" x 12" No. Of Blades 4, 2 Blade fix 2 Blade Rotor, Capacity 50 Kg, Motor 5HP 3 Ph 1440 KPM.	

Vhi %& 'kkI u ds fu; ekud kj ; fn dkboZ dj yxk;k x;k gks rks ml dk i Fkd I s mYy[k fd;k t;k,A

दिनांक:-

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम एवं पता